

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 473]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2021 — भाद्रपद 5, शक 1943

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 अगस्त 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-42/2021/वा.क.(आब.)/पांच(61).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

- (1) प्ररूप एफ.एल.2 की शर्त (7-अ) में शब्द व अंक “बीयर की 780 बोतल” के स्थान पर शब्द व अंक “बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (2) प्ररूप एफ.एल.3 की शर्त (6-अ) में शब्द व अंक “स्पिरिट की 420 क्वार्ट बोतल का और बीयर की 660 बोतल” के स्थान पर शब्द व अंक “स्पिरिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (3) प्ररूप फ.एल.3-क की शर्त (6)(क) में शब्द व अंक “स्पिरिट की 420 क्वार्ट बोतल का और बीयर की 660 बोतल” के स्थान पर शब्द व अंक “स्पिरिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (4) प्ररूप एफ.एल.4 की शर्त (4) में शब्द किसी एक समय में के पश्चात् शब्द व अंक “250 (दो सौ पचास) क्वार्ट बोतल स्पिरिट” तथा एवं के पश्चात् शब्द व अंक “450 (चार सौ पचास) क्वार्ट बोतल बीयर” प्रतिस्थापित किया जाये।
- (5) प्ररूप एफ.एल.4क की शर्त (4) में शब्द व अंक “144 (एक सौ चौवालीस) क्वार्ट बोतल स्पिरिट एवं 288 (दो सौ अठ्ठासी) क्वार्ट बोतल माल्ट” के स्थान पर शब्द व अंक “स्पिरिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 10 प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये।

2. उक्त संशोधन जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 24 अगस्त 2021

क्रमांक एफ 10-42/2021/वा.क.(आब.)/पांच(61).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-08-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 24th August 2021

NOTIFICATION

No. F 10-42/2021/CT(Ex)/V(61).— In exercise of the powers conferred by clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2), read with the proviso of sub-section(3) of section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) the State Government, hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules 1996, namely :-

AMENDMENT

1. In the aforesaid rules :-

- (1) In Condition No. (7-A) of Form F.L.-2, for the words and figures, "780 bottles of beer" the word and figures, "10 percent of the annual prescribed minimum guaranteed quantity of beer ", shall be substituted.
- (2) In Condition No. (6-A) of Form F.L.-3, for the words and figures, "420 Quart bottles of spirit and 660 bottles of beer", the word and figures, "10 percent of the annual prescribed minimum guaranteed quantity of spirit and beer", shall be substituted.
- (3) In Condition No. (6) (A) of Form F.L.-3A, for the words and figures, "420 Quart bottles of spirit and 660 bottles of beer", the word and figures "10 percent of the annual prescribed minimum guaranteed quantity of spirit and beer", shall be substituted.
- (4) In Condition No. (4) of Form F.L.-4, after the words, " at any one time" the words and figures, "250 (two hundred and fifty) Quart bottles of spirit", and after the word, "and", the words and figures, "450 (four hundred and fifty) quart bottles of beer", shall be substituted.
- (5) In Condition No. (4) of Form F.L.-4A, for the words and figures, "144 (One Hundred and Forty Four) Quart bottles of spirit and 288 (Two Hundred and Eighty Eight) quart bottles of malt", the word and figures, "10 percent of the annual prescribed minimum guaranteed quantity of spirit and beer", shall be substituted.

2. This notification shall be applicable from the date of notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A.P. TRIPATHI, Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 24 अगस्त 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-42/2021/वा.क.(आब.)/पांच(62).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-03-97 पृष्ठ 251-52 पर प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (4) (बी)-1-52-96-वा.कर-5, दिनांक 27 मार्च 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अध्याय-दो के भाग-8 के पैरा-तीन की सारणी में क्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात् :-

1	2	3
"4,	विदेशी मदिरा	प्ररूप एफ.एल.1(घघ) विदेशी मदिरा दुकान, प्ररूप एल.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) विदेशी/देशी मदिरा दुकान तथा प्ररूप सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट) देशी/विदेशी मदिरा दुकान से एफ.एल.2 रेस्टोरेंट बार, एफ.एल.3 होटल बार, एफ.एल.3-क शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार, एफ.एल.4 असैनिक विनोद गृह एवं एफ.एल.4क व्यवसायिक क्लब के लिये विक्रय की अधिकतम सीमा वही होगी जो उनके अर्थात् एफ.एल.2 रेस्टोरेंट बार, एफ.एल.3 होटल बार, एफ.एल.3-क शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार, एफ.एल.4 असैनिक विनोद-गृह एवं एफ.एल.4-क व्यवसायिक क्लब हेतु निर्धारित आधिपत्य सीमा की मात्रा होगी।

2. उक्त संशोधन जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 24 अगस्त 2021

क्रमांक एफ 10-42/2021/वा.क.(आब.)/पांच(62).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-08-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 24th August 2021

NOTIFICATION

No F 10-42/2021/CT(Ex)/V(62).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby makes following amendments in the Notification no.(4) (B)-1-52-96-C.T.-5, dated 27th March 1997, issued by the department and published on page 251-52 of Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary), dated 27-03-97, namely :-

AMENDMENT

In the above notification, in place of number 4 and entries related to it, in the table of para-three of part-8 of chapter-two, following number and entries shall be substituted, i.e. :-

1	2	3
"4,	Foreign Liquor	The maximum quantity to be sold to F.L.-2 Restaurant Bar, F.L.3 Hotel Bar, F.L.3-A Shopping Mall Restaurant Bar, F.L.4 Civilian club and F.L.4-A Commercial club, from F.L.1(DD) Foreign Liquor shop, F.L.1(DD-Composite) Foreign/Country Liquor shop, C.S.-2 (DD-Composite) Country/Foreign Liquor shop, shall be equivalent to the prescribed possession limit of subsequently F.L.-2 Restaurant Bar, F.L.3 Hotel Bar, F.L.3-A Shopping Mall Restaurant Bar, F.L.4 Civilian club and F.L.4-A Commercial club.

2. The above amendment shall be applicable from the date of issue.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A.P. TRIPATHI, Special Secretary.